



# ASK AUTOMOTIVE LIMITED

(Formerly known as ASK Automotive Private Limited)

Dated: 2<sup>nd</sup> December, 2023

BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001 Scrip Code: 544022	National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, C-1, Block - G, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051 Symbol: ASKAUTOLTD
---	--

## Sub: Publication of Financial Results in Newspapers

Dear Sir(s),

The Company has published abstract of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended 30<sup>th</sup> September, 2023, in "Financial Express" (English) and "Jansatta" (Hindi) newspapers both dated 2<sup>nd</sup> December, 2023, a copy each of which is enclosed.

You are requested to take the above on record.

Thanking you.

Yours Faithfully,

For **ASK Automotive Limited**

Rajani Sharma  
Vice President (Legal) Company Secretary and Compliance Officer  
Membership No.: 14391  
Address: Plot No. 13-14, Sector – 5, IMT Manesar – 122050 Haryana

Encl: As above.

Corporate Office: -

Plot No. 13-14, Sector - 5, I.M.T. Manesar,

Distt. Gurgaon. PIN - 122050 (Hr.)

Ph: 0124 - 4396900

e-mail: [info@askbrake.com](mailto:info@askbrake.com)

: [roc@askbrake.com](mailto:roc@askbrake.com)

Website : [www.askbrake.com](http://www.askbrake.com)



Registered Office:

Flat No. 104, 929/1, Nawala,  
Faiz Road, Karol Bagh,  
New Delhi - 110 005

Tel: 011-28758433, 28759605

011-28752694, 43071516

CIN: U13430ND11988PL0030342

● EASES FROM Q2

# Manufacturing PMI rises to 56 in Nov

PRIYANSH VERMA  
New Delhi, December 1

**INDIA'S MANUFACTURING PURCHASING Managers' Index (PMI)**, compiled by S&P Global, rose to 56.0 in November from 55.5 in the previous month, driven by robust demand and easing inflationary pressures.


However, with the November print, the manufacturing PMI has averaged 55.8 in the first two months of Q3FY24, which is much lower than 57.9 in Q2FY24 and Q1FY24.

The high-frequency data comes close on the heels of the National Statistical Office (NSO) on Thursday revealing that gross value added (GVA) in manufacturing rising 13.9% in the September quarter, though on a weak base (-3.8%).

The third quarter of any fiscal generally provides a boost to manufacturing activity in the country in the backdrop of festive season.

The October PMI print at 55.5, however, was the lowest in eight months, which was in contrast with the core-sector production data that showed the output of eight core industries had grown 12.1% year-on-year during October.

The core sector's double-digit growth rate recorded in



Note: Reading below 50 suggests contraction and above it indicates expansion; Source: PMI by S&P Global

October was the second highest in 16 months, although it was aided by a weak base.

The manufacturing PMI measures the change in the manufacturing activity in the country. A reading above 50 denotes an expansion in activity as compared to the previous month, while a reading below signals contraction.

The PMI index is compiled after receiving data from a panel of around 400 manufacturing firms.

The panel is organised by detailed sector and company workforce size, based on contributions to GDP.

"India's manufacturing industry maintained its robust performance in November, with output regaining growth momentum. Firms' ability to secure new business, both domestically and from abroad, remained central to the success of the sector," said Pollyanna De Lima, economics associate director at S&P Global Market Intelligence.

A key feature of the latest results was a substantial easing of price pressures, noted S&P Global.

"Although average purchasing costs rose again, the rate of inflation eased to the lowest in the current 40-month sequence of increases and was negligible by historical standards."

## GAIL files \$1.8 billion case against former unit of Gazprom

FE BUREAU  
New Delhi, December 1

**GAIL (INDIA) HAS** filed claims worth \$1.8 billion (₹15,000 crore) against SEFE Marketing & Trading Singapore in the London Court of International Arbitration, according to an exchange filing by the company. The litigation is related to the non-supply of LNG cargoes to GAIL under a long-term contract, the company said.

The quantum of claims is up to \$1.8 billion and alternative reliefs include non-monetary reliefs, the filing said.

SEFE Marketing and Trading Singapore, formerly known as Gazprom Marketing and Trading Singapore, had signed an agreement with GAIL to supply 2.5 million tonne of liquefied natural gas per annum for 20 years starting FY19. However, post the outbreak of Russia-Ukraine war, the long-term gas contract was disrupted in May 2022.

Under the contract SEFE Marketing and Trading Singapore were supposed to supply 40 cargoes to GAIL. The total disruption in the shipment was of 30 cargoes since May 2022 with a value of \$1.7 billion or ₹14,057 crore, BQ Prime reported.

# No exclusive sops for Tesla's EVs, says govt

MUKESH JAGOTA  
New Delhi, December 1

**AMERICAN MULTINATIONAL AUTOMOTIVE** Tesla seeking reduced tariffs on fully built vehicle imports till its manufacturing operations begin is a matter under discussion among various ministries, but the decision will take time and any policy changes, if implemented, will be applied to the entire industry, a senior official with the knowledge of the matter said on Friday.

"There will never be any company-specific concession. They will always be for all entities and all companies. If any concessions are given it will always be linked to fairly stringent performance criteria," the official who did not wish to be named said.


"When concessions are given you have an investment threshold, domestic value addition threshold, things of that type. Tariff concessions will also have similar things," he added.

The government is consid-

**POLICY TWEAK?**

■ Reports suggest that Tesla is ready to invest up to **\$2 bn** for setting up manufacturing operations **15%** concessional duty on its imported vehicles is approved

■ If there is any tweak in EV policy, it will be applied to the entire industry



■ The decision on Tesla's demand and how government policy responds to it may take more than a quarter

■ Currently, India imposes **100%** import duty on fully imported cars with CIF value more than **\$40,000** and **70%** on those costing less

ering Tesla's request because it has made a firm offer.

Recent reports have suggested that Tesla is ready to invest up to \$2 billion for setting up manufacturing operations if the government approves a concessional duty of 15% on its imported vehicles till the local operations start. The reports were dismissed as speculation by the official.

The talks are not just going in with Tesla regarding the concessions but also with other global and Indian manufacturers.

The decision on Tesla's demand and how government policy responds to it would take more than a quarter, the official indicated.

## Free hospital care benefit exceeds ₹75,000 cr

PRASANTA SAHU  
New Delhi, December 1

**SINCE THE ROLLOUT** of Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY) in September 2018, over 59.7 million beneficiaries nationwide have accessed free hospitalisation benefits worth ₹75,162 crore. PM-JAY provides ₹5,00,000-a-year free health cover to 107 million poor households, encompassing approximately 40% of the country's population.

Tamil Nadu leads in beneficiaries with 0.91 million authorised hospital admissions, followed by Karnataka (6.73 million), Rajasthan (5.74 million), and Kerala (5.47 million). The trend suggests that states with higher per capita income benefit more, indicating better awareness and efforts to leverage the pro-poor flagship. Bihar, the third largest populated state with a very low per capita income, is one of the least beneficiary states of the scheme.

## Centre to promote bio-fortified seeds

**TO IMPROVE NUTRIENT** content in the existing crops, the government has commenced work on development of bio-fortified seeds enriched with more protein, zinc and other nutrients for several crops such as pulses, rice, wheat, mustard,

millet, fruits and vegetables. Sources told FE that Indian Council for Agricultural Research (ICAR) is currently working on developing around 140 varieties of fortified seeds for several crops.

—FE BUREAU

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (E) RDSS DIVISION, ELECTRICITY DEPARTMENT-II  
**NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL**  
ROOM NO-1705, 17TH FLOOR, PALIKA KENDRA, NEW DELHI-110001

**CORRIGENDUM**

Name of Work:- Appointment of Advanced Metering Infrastructure (AMI) Service Provider for Smart System Metering in NDMC, NCT of Delhi, India on Design Build Finance Own Operate and Transfer (DBFOOT) basis.

Tender Value :- Rs. 21,79,20,600/-

Tender ID No. :- 2023\_NDMC\_249962\_1

Corrigendum No.	Particulars	Original Date	Extended Date
1.	Bid Submission End Date	05.12.2023 at 15:00 Hrs	14.12.2023 at 15:00 Hrs
	Bid Opening Date	05.12.2023 at 16:00 Hrs	14.12.2023 at 16:00 Hrs
2.	Amendment in Technical Bid		

Further details can be seen at <https://govtprocurement.delhi.gov.in> and <https://www.ndmc.gov.in/tenders.aspx>

Note:- To participate in e-tender in NDMC registration with application services provider NIC is mandatory.

Executive Engineer (E) RDSS

**ASK Automotive Limited**  
(Formerly known as ASK Automotive Private Limited)  
CIN: U34300DL1988PLC030342

DRIVING SAFETY THROUGH INNOVATION

**Extract of Statement of Consolidated Unaudited Financials Results for the Quarter and Six Months ended 30 September 2023**

(INR in Lakhs)

S. No.	Particulars	Quarter ended			Six Months Ended		Year ended
		September 30, 2023	June 30, 2023	September 30, 2022	September 30, 2023	September 30, 2022	March 31, 2023
		Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income	79,841.85	65,754.57	74,916.13	1,45,596.42	1,35,589.11	2,56,627.82
2	Net Profit/(Loss) (before share of Net Profit/(Loss) of joint venture)	5,412.46	4,542.98	6,902.91	9,955.44	10,385.01	17,564.78
3	Net Profit/(Loss) before tax	5,687.90	4,763.68	6,659.03	10,451.58	9,896.99	16,975.57
4	Net Profit/(Loss) after tax	4,124.12	3,482.86	4,870.71	7,606.98	7,126.10	12,295.00
5	Total Comprehensive Income/(Loss)	4,109.04	3,469.18	4,865.70	7,578.22	7,112.02	12,293.70
6	Equity Share Capital	3,942.85	3,942.85	3,942.85	3,942.85	3,942.85	3,942.85
7	Other Equity						60,434.02
8	Profit/(Loss) per equity share* (Face Value of Rs.2)						
	(a) Basic (In Rs.):	2.09	1.77	2.43	3.86	3.55	6.18
	(b) Diluted (In Rs.):	2.09	1.77	2.43	3.86	3.55	6.18

\*Not annualised except for year ended 31<sup>st</sup> March, 2023.

**Notes:**

- The above is an extract of Consolidated Unaudited Financial Results of ASK Automotive Limited (Formerly known as ASK Automotive Private Limited) ('the Holding Company') and its subsidiary (the Holding Company and its subsidiary together referred to as 'the Group'), its joint venture for the quarter and six months period ended 30 September 2023 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of Holding Company at their respective meetings held on 1 December 2023. The statutory auditors have carried out limited review of the above results.
- The Consolidated Unaudited Financial Results, for the quarter and six months period ended 30 September 2023 have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards 34, Interim Financial Reporting ('Ind AS - 34'), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 (the Act) and other accounting principles generally accepted in India and is in compliance with the presentation and disclosure requirement of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended).
- ASK Automotive Limited has completed an Initial Public Offer ('IPO') of 2,95,71,390 Equity shares having face value of INR 2 each, at an issue price of INR 282 per equity share (including share premium of INR 280 per share), comprising offer for sale of 2,95,71,390 shares by selling shareholders aggregating to INR 83,391.32 Lakhs. The equity shares of the ASK Automotive Limited were listed on BSE Limited ('BSE') and National Stock Exchange of India Limited ('NSE') on 15 November 2023. Accordingly, the above statement for the quarter and six months period ended 30 September 2023 have been drawn up for the first time, in accordance with Regulations 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended).
- The figures for the quarter and six months period ended 30 September 2022 have been approved by the Board of Directors and have been subject to review by the Statutory Auditors.
- The Group is primarily engaged in the manufacturing of auto components including advanced braking systems, aluminium lightweighting precision solutions and safety control cables primarily for automobile industry and substantial sale of the products is within India. Hence, there are no other reportable segments in terms of requirements Ind AS 108 'Operating Segments'.

**Additional Information on Standalone Financial Results**

S. No.	Particulars	Quarter ended			Six Months Ended		Year ended
		September 30, 2023	June 30, 2023	September 30, 2022	September 30, 2023	September 30, 2022	March 31, 2023
		Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income	79,629.87	65,810.45	74,993.01	1,45,440.32	1,35,716.90	2,57,037.67
2	Net Profit/(Loss) before tax	6,358.40	4,818.76	7,010.97	11,177.16	10,571.23	18,279.81
3	Net Profit/(Loss) after tax	4,794.48	3,537.33	5,222.65	8,331.81	7,800.34	13,599.24

**Notes:**

- The above is an extract of Standalone Unaudited Financial Results of ASK Automotive Limited (Formerly known as ASK Automotive Private Limited) ('the Company') for the quarter and six months period ended 30 September 2023 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 1 December 2023. The statutory auditors have carried out limited review of the above results.
- The Standalone Unaudited Financial Results, for the quarter and six months period ended 30 September 2023 have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards 34, Interim Financial Reporting ('Ind AS - 34'), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 (the Act) and other accounting principles generally accepted in India and is in compliance with the presentation and disclosure requirement of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended).
- The Company has completed an Initial Public Offer ('IPO') of 2,95,71,390 Equity shares having face value of INR 2 each, at an issue price of INR 282 per equity share (including share premium of INR 280 per share), comprising offer for sale of 2,95,71,390 shares by selling shareholders aggregating to INR 83,391.32 Lakhs. The equity shares of the Company were listed on BSE Limited ('BSE') and National Stock Exchange of India Limited ('NSE') on 15 November 2023. Accordingly, the above statement for the quarter and six months period ended 30 September 2023 have been drawn up for the first time, in accordance with Regulations 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended).
- The figures for the quarter and six months period ended 30 September 2022 have been approved by the Board of Directors and have been subject to review by the Statutory Auditors.
- The Company is primarily engaged in the manufacturing of auto components including advanced braking systems, aluminium lightweighting precision solutions and safety control cables primarily for automobile industry and substantial sale of the products is within India. Hence, there are no other reportable segments in terms of requirements Ind AS 108 'Operating Segments'.

The Above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the quarter and six months period ended 30 September 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter and six months period ended Financial Results are available on the website of the Stock Exchanges at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) / [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and company website [www.askbrake.com](http://www.askbrake.com).

**For and on behalf of the Board of Directors of ASK Automotive Limited (Formerly known as ASK Automotive Private Limited)**

Sd/-  
**Kuldip Singh Rahtee**  
Chairman and Managing Director  
DIN: 00041032

Place: Gurugram  
Date: 1 December 2023

Registered Office: Flat No. 104, 929/1, Naiwala, Faiz Road, Karol Bagh, New Delhi-110005.  
Phone: 011-28758433 ; E-mail: [info@askbrake.com](mailto:info@askbrake.com); websites: [www.askbrake.com](http://www.askbrake.com)

## Rabi sowing slows on late kharif harvest



SANDIP DAS  
New Delhi, December 1

**DUE TO DELAYED** harvesting of paddy in states like Punjab and Haryana, the sowing of crucial rabi crops—wheat, pulses, and oilseeds—has been impacted, officials said.

According to the agriculture ministry on Friday, wheat has been sown in 18.8 million hectares (mh), a 5% decrease from the previous year, while the total estimated area to be covered this season is 30.73 MH.

An agriculture ministry official said that sowing of rabi crops is 'slightly delayed' due to late harvesting of kharif paddy in some states including Punjab where farmers went for replanting of paddy following floods in July.

These are, however, still early days to make an assessment of the rabi crop output as sowing would continue through December, an official said. However, because of deficiency, the north-eastern monsoon and fear of El Nino conditions prevailing till the middle of next year could impact rabi crop yield.

Total area under all winter sown crops was 43.47 mh, a decline of 5.33% compared to previous year. The five-year average rabi crop area is 64.8 mh. Pulses and oilseeds majorly in Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Maharashtra have been sown in 10.8 mh and 8.94 mh so far a decline of 9.44% and 0.43% respectively compared to the same period previous year. Mustard sowing is marginally up on year at 8.42 MH so far while total area the key oilseeds is 8.4 mh. The sowing of oilseeds has been largely completed across key growing states, an official said.

**केनरा बैंक Canara Bank**  
भारत सरकार का उद्योग  
A Government of India Undertaking  
सिंडिकेट Syndicate

H.O., 112, J. C. ROAD, BENGALURU-560 002  
[www.canarabank.com](http://www.canarabank.com)

**APPEAL TO SHAREHOLDERS OF CANARA BANK**

- In terms of Regulation 40(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, transfer of securities held in physical mode has been discontinued w.e.f. April 01, 2019. Accordingly, transfer of shares can be done only if the shares are held in dematerialized (demat) form.
- Further, SEBI vide Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD\_RTAMB/P/CIR/2022/8 dated 25th January 2022, decided that listed companies while processing requests for issue of duplicate share certificate, transmission, transposition, etc., shall henceforth issue the securities in demat form only.
- In view of above, we request all shareholders of the Bank, who hold the shares in physical form to kindly dematerialize their shares.
- Canara Bank has sent separate communications to the Shareholders holding shares in physical form advising them to update the requisite KYC details in their respective folios. The copies of the aforesaid circulars and requisite forms (ISR-1 to 4, Form SH-13 & 14) are hosted on website of the Bank at <https://canarabank.com/shareholder-information> and that of its Registrar and Transfer Agents (RTA), viz., KFin Technologies Ltd at [www.kfintech.com](http://www.kfintech.com). SEBI, vide its circular SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2023/181 dated 17.11.2023 has reiterated the necessity of KYC updation and has done away with freezing/referral of folios.
- In terms of SEBI Circular No. CIR/MRD/DP/10/2013 dated 21.03.2013, listed companies shall mandatorily make all payments to investors including dividend to Shareholders, through RBI approved electronic mode of payment such as ECS [LECS (Local ECS) / RECS (Regional ECS) / NECS (National ECS), NEFT etc. We request all Shareholders who have till date not registered their bank account details, to register/ update the same. Accordingly, we request the shareholders of the Bank, who hold the shares in demat form to verify the correctness of their bank account details with their demat service provider and update the same if required.
- Accordingly, we request Shareholders who hold shares in physical form to furnish the requisite KYC details including e-mail id(s) and/ or Bank account details (if not already furnished) in forms / formats mentioned above, and submit the same to our RTA on address provided below:  
**KFin Technologies Limited, (Kfin), Unit : Canara Bank, Selenium Tower B, Plot No.31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad - 500032 [Toll Free No. 1800-309-4001, E-mail : [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com)]**
- We, hereby request all Shareholders of Canara Bank, who have till date not registered their e-mail id(s) with their demat service provider/our RTA, to register their e-mail id(s) in order to receive Notices of General Meetings, participate in e-voting, receive Annual Report and other communications in electronic form.

**For Canara Bank**  
**Santosh Kumar Barik**  
Company Secretary

Place : Bengaluru  
Date : 02.12.2023

**JMS GROUP**  
Corporate Office:- 07<sup>th</sup> Floor, North Tower, M3M Tee Point, Sector-65, Gurugram, Haryana  
Registered Office:- Plot No. 2380 SP, Sector - 46, Gurugram, Haryana  
Email:- [info@jmsgroup.co.in](mailto:info@jmsgroup.co.in) Telephone:- +91-124-4215130

**PUBLIC NOTICE**

The general public, allottees & Govt. Authorities are hereby notified that Corporate & Registered Office of JMS Group consisting of M/s JMS Buildtech Pvt. Ltd., M/s JMS Infra Realty Pvt. Ltd., M/s JMS Buildwell Realty Pvt. Ltd., M/s JMS Infra Build Pvt. Ltd. has been changed. That the Corporate Office of JMS Group has relocated to 07th Floor, North Tower, M3M Tee Point, Sector-65, Gurugram, Haryana and the Registered office to Plot No. 2380 SP, Sector - 46, Gurugram, Haryana. All future correspondence should be sent to new corporate office. The office hours will remain unchanged, from 10:00 am to 6:00 pm. For more information, please contact above mentioned Email & Telephone.

Place: Gurugram  
Date: 02.12.2023

**JMS Group**

**CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION**  
(A Govt. of India Undertaking)  
Warehousing for everyone

No. CWCC-EDOTC/84/2023-Tender Cell-CO Date: 22.12.2023

**NOTICE INVITING E-TENDER**

E-Bid Invitation Notice for development of storage facility through PPP under DBFOT model at 12 locations across India

Central Warehousing Corporation (CWC) invites e-bids from interested parties for development of storage facility through PPP model under DBFOT model at 12 different locations across India. The details of tenders are as below:

Sl.No.	Name of Places	NIT No.
1	Uttar Pradesh: Sahibabad-II, Lucknow, Ghaziabad, Jhansi Tamil Nadu: Virugambakkam, Chrompet Karnataka: Thiruvuru	CWC-CO-CDCCMM/17/2022-CoMM
2	Madhya Pradesh: Gwalior, Indore-V Kerala: Enkokulam Chhattisgarh: Raipur-II	CWC-CO-CDCCMM/18/2022-CoMM
3	Karnataka: Yathwantpur	CWC-CO-CDCCMM/19/2022-CoMM

For more information and to download the tender, [www.cwccorporation.com](http://www.cwccorporation.com) or [www.cwccorpltd.in](http://www.cwccorpltd.in) can be visited. The last date for submission of e-bid in the prescribed format is 03.01.2024 till 15:00 hrs.

Tender Cell, Corporate Office,  
Central Warehousing Corporation, New Delhi



## उपराज्यपाल ने दी श्रम विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी

# 83 प्रतिष्ठान खुलेंगे चौबीसों घंटे

जनसत्ता संवाददाता  
नई दिल्ली, 1 दिसंबर।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व श्रम मंत्री द्वारा 83 प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोलने के प्रस्ताव अनुमोदन के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास भेजा था, जिसे शुक्रवार को मंजूरी दे दी गई है। इससे जहाँ कारोबार आसान होगा, वहीं दिल्ली के लोगों को रोजगार का अवसर भी मिलेगा। उपराज्यपाल ने दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 की धारा 14, 15 और 16 के तहत अन्य 83 प्रतिष्ठानों को छूट दी है, जिसके बाद कुल संख्या 607 हो गई है। बता दें कि यह दुकानें या प्रतिष्ठान सप्ताह के सातों दिन व 24 घंटे खुलेंगी।



श्रम मंत्री व मुख्यमंत्री ने किया था प्रस्ताव का अनुमोदन, अब कुल 607 प्रतिष्ठानों को मिली छूट।

प्राइवेट लिमिटेड हैं। इसके साथ ही खान-पान की दुकानों की श्रृंखला खोलने वाला बिकानेरवाला इंटरनेशनल सहित कई नामी-गिरामी कंपनियां शामिल हैं। जोकि अब 24 घंटे संचालित हो सकेंगे।

अक्टूबर 2022 के बाद से यह इस तरह का चौथा प्रस्ताव है, जिसे उपराज्यपाल ने मंजूरी दी है। पहली बार इस आधार पर काम करने की छूट 314 प्रतिष्ठानों को दी गई थी, उसके बाद इस वर्ष अप्रैल और जून में क्रमशः 55 और 155 प्रतिष्ठानों को इस तरह की छूट दी गई थी। मौजूदा प्रस्ताव को मंजूरी के बाद दिल्ली में अब इस तरह के प्रतिष्ठानों की संख्या बढ़कर 607 हो गई है। इनसे राजधानी के विभिन्न

स्थानों पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री और श्रम विभाग की सराहना करते हुए कहा कि इस संबंध में आवेदनों को पहले की तुलना में, जब 2016 से लंबित आवेदन 2022 तक मंजूरी के लिए आए थे, अब तेजी से मंजूरी दी जा रही है, जो प्रशंसनीय है।

उपराज्यपाल ने कहा कि एक साल पहले जब उन्होंने पहली बार आवेदनों के निपटान में अत्यधिक और बेवजह देरी का मुद्दा उठाया था, तब से विभाग ने निश्चित रूप से एक लंबा सकारात्मक सफर तय किया है। साथ ही उपराज्यपाल ने विभाग को निर्देश दिए 15 दिनों के भीतर इसकी जानकारी दी जाए कि पिछले एक वर्ष के दौरान खारिज किए गए आवेदनों का निस्तारण क्यों नहीं किया गया और दोबारा आवेदन करने पर क्या नतीजा निकला।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के अलावा, निवेशक अनुकूल माहौल बनाने तथा दिल्ली के आर्थिक विकास के हित में भी होगा। उन्होंने विभाग को आवेदकों के लिए एक सुविधा व सक्षम तंत्र बनाने पर विचार करने का भी निर्देश दिया।

## अदालत ने नाबालिग लड़कियों के अपहरण, यौन उत्पीड़न की घटनाओं में वृद्धि पर जताई चिंता

जनसत्ता संवाददाता  
नई दिल्ली, 1 दिसंबर।

शादी के बहाने नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न पर चिंता व्यक्त करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि ऐसी घटनाएं महिलाओं के सशक्तीकरण की अवधारणा को कमजोर करती हैं। अदालत ने इसके साथ ही पीड़िता के अपहरण और दुष्कर्म के लिए अपनी दोषसिद्धि और 10 साल की सजा के खिलाफ एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी।

उच्च न्यायालय ने कहा कि नाबालिग पीड़ितों के अतिसंवेदनशील मन पर गहरा असर पड़ता है क्योंकि उनमें 12 या 14 साल की उम्र में उचित निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। अदालत ने कहा कि इन लड़कियों को यह विश्वास दिलाकर गुमराह किया जाता है कि वे वैवाहिक बंधन में बंध रही हैं।

अदालत ने कहा कि यौन उत्पीड़न को अक्सर हमलावर द्वारा वैवाहिक शारीरिक संबंध के रूप में पेश किया जाता है ताकि पीड़िता को बिना किसी प्रतिरोध के इसे स्वीकार करने के लिए राजी किया जा सके। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने तीन नवंबर के अपने आदेश में कहा, "इस तरह के अपराधों का गहरा सामाजिक प्रभाव होता है। इस तरह के मामलों में, नाबालिग लड़कियों के अपहरण

उच्च न्यायालय ने कहा कि नाबालिग पीड़ितों के अतिसंवेदनशील मन पर गहरा असर पड़ता है क्योंकि उनमें 12 या 14 साल की उम्र में उचित निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। अदालत ने कहा कि इन लड़कियों को यह विश्वास दिलाकर गुमराह किया जाता है कि वे वैवाहिक बंधन में बंध रही हैं।

की बढ़ती घटनाएं देखी जाती हैं, जिनके साथ शादी की आड़ में यौन उत्पीड़न किया जाता है।" यह फैसला 30 नवंबर को सार्वजनिक किया गया। अदालत ने पहले से शादीशुदा और दो बच्चों का पिता होने के बावजूद शादी के बहाने 14 वर्षीय लड़की का अपहरण और यौन उत्पीड़न करने के आरोप में दोषी ठहराए जाने और सजा के खिलाफ एक व्यक्ति की अपील को खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं।

लड़की ने अपने बयान में कहा था कि जब वह आठवीं कक्षा में पढ़ती थी, तब वह आदमी उसका पीछा करता था और उनके बीच दोस्ती हो गई। वह उसे दिल्ली से बाहर ले गया और शादी करने का झांसा देकर उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए। उसने कहा कि उन्होंने बिहार में शादी कर ली और फर्जी पहचान पर दिल्ली में रहने लगे। उसने कहा कि जो कुछ हुआ उससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई और उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी।

## वेतन न मिलने से परेशान जलबोर्ड कर्मी अदालत पहुंचे, वित्त सचिव को नोटिस

जनसत्ता संवाददाता  
नई दिल्ली, 1 दिसंबर।

दिल्ली जलबोर्ड के कर्मचारियों ने कई महीने से वेतन न मिलने व कई योजनाओं के अधर में लटकने की आशंका के मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फरवरी माह से इन्हें वेतन न मिलने का मामला संज्ञान में आने पर अदालत ने दिल्ली सरकार के वित्त सचिव आशीष वर्मा को निजी तौर पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इस मामले की सुनवाई 11 दिसंबर के लिए निर्धारित कर दी है। वेतन की लंबे समय से चल रही दिक्कतों के मद्देनजर कर्मचारियों ने इस

मामले को लेकर आंदोलन भी चलाया था। जलबोर्ड वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने वेतन न मिलने से परेशान होकर काम ठप करने की धमकी भी दी थी।

इस मामले में दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने दावा किया था कि वित्त विभाग द्वारा दिल्ली जल बोर्ड का पैसा रोके जाने के कारण शहर 'मानव जनित जल संकट' का सामना कर रहा है और उन्होंने इस मामले में उपराज्यपाल वीके सक्सेना से तुरंत दखल की मांग की थी। आतिशी ने मुख्यमंत्री के जरिए उपराज्यपाल को भेजे नोट में बताया था कि दिल्ली जल बोर्ड का 910 करोड़ रुपए बकाया है, जो वित्त विभाग जारी नहीं कर रहा है। जिससे कर्मचारियों को फरवरी से वेतन नहीं मिल पाया है।

## किन्नर समुदाय के इलाज के लिए एक अलग केंद्र बनाएगा एम्स

जनसत्ता संवाददाता  
नई दिल्ली, 1 दिसंबर।

अखिल भारतीय आधुनिक संस्थान (एम्स) किन्नर समुदाय के लोगों के इलाज के लिए एक अलग सेंटर बनाएगा। इन लोगों के अलग से इलाज के लिए अब तक कहीं

भी कोई व्यवस्था नहीं है। इसके चलते एम्स में देश का पहला एंसा सेंटर बनाने की पहल की है। यहां के प्लास्टिक सर्जरी विभाग प्रमुख डा मनीष सिंघल के मुताबिक, देश में अपनी तरह का ये पहला सेंटर होगा, जिसमें किन्नर समुदाय को सभी तरह का इलाज मिलेगा।

कार्यालय कार्यालय अधिकारिता (ई) आरडीएसएस डिजिटल वित्त विभाग-2  
**नई दिल्ली नगरपालिका परिषद**  
कमरा नं. 1705, 17वां तल, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली-110001

**शुद्धिपत्र**

कार्य का नाम: डिजाइन निर्माण वित्त, स्वाभिव, संचालन, स्थानांतरण (डीबीएफओडी) आधार पर एनडीएमसी, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली में स्टाट सिस्टम मॉडरनिंग से एडवांस मीटरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) सर्विस प्रोवाइडर की नियुक्ति।

निविदा मूल्य: ₹. 21,79,20,600/-  
निविदा आईडी: 2023\_NDMC\_249962\_1

क्र.सं.	विवरण	मूल तिथि	विस्तारित तिथि
1.	निविदा जमा अंतिम तिथि	05.12.2023 को 1500 बजे	14.12.2023 को 1500 बजे
2.	निविदा खुलने की तिथि	05.12.2023 को 1600 बजे	14.12.2023 को 1600 बजे
	तकनीकी निविदा में संशोधन		

विरस्तु विवरण <https://govtprocurement.delhi.gov.in> एवं <https://www.ndmc.gov.in/tenders.aspx> पर देखें जा सकते हैं।  
नोट: एनडीएमसी में ई-निविदा में भागीदारी के लिए एंजलीकेशन सर्विस प्रोवाइडर एमआईडी के साथ पंजीकरण अनिवार्य है।

कार्यालय अधिकारिता (ई) आरडीएसएस

## एसओएल की अध्ययन सामग्री डीयू अकादमिक परिषद में नहीं हुई पारित : केवाईएस

जनसत्ता संवाददाता  
नई दिल्ली, 1 दिसंबर।

दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल आफ ओपन लर्निंग (एसओएल) के अध्ययन सामग्री का क्रांतिकारी युवा संगठन (केवाईएस) लगातार विरोध कर रहा था। जिसका सकारात्मक परिणाम उन्हें मिला और शुक्रवार को डीयू अकादमिक परिषद में अध्ययन सामग्री को पारित नहीं किया गया। यही नहीं कुलपति ने एसओएल के अध्ययन सामग्री में मौजूद गलतियों व गड़बड़ियों की जांच व समीक्षा के लिए विशेष कमिटी गठित करने का आश्वासन भी दिया है। इस कमिटी में कैपस आफ ओपन लर्निंग के निदेशक, अकादमिक मामलों के डी व अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष बतौर सदस्य रहेंगे।

केवाईएस ने बताया कि इस अध्ययन सामग्री गुणवत्ता वेदद ही खराब है और इस मुद्दे को निवारित शिक्षक प्रतिनिधि डा माया जान ने शुक्रवार को अकादमिक परिषद में उठाया था। इस अध्ययन सामग्री में ढेरों व्याकरण संबंधी गलतियां, भाषा के गड़बड़ उपयोग के उदाहरण, तथ्यात्मक रूप से गलत जानकारी, साहित्यिक चोरी, आदि शामिल हैं। बीए (विशेष) राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम के लिए हिंदी माध्यम की अध्ययन सामग्री में, मॉटागु-चेम्सफोर्ड रपट को हास्यास्पद रूप से मारुटेन ड्यू-चेम्सफोर्ड रपट के रूप में लिखा गया है। एक अन्य हिंदी सामग्री में लिखा है कि भारत को आजादी 1947 की बजाय 1945 में मिली।

## दिल्ली : महंगा हुआ व्यावसायिक सिलेंडर

जनसत्ता संवाददाता  
नई दिल्ली, 1 दिसंबर।

दिल्ली में व्यवसायिक सिलेंडर गैस शुक्रवार से महंगी हो गई। मौजूदा दर से इसमें 21 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही राजधानी में सिलेंडर की कीमत अब 1796.50 रुपए पहुंच गई है। दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर के लिए 1796.50 रुपए चुकाने पड़ेंगे, जबकि इससे पिछले इसका दाम 1775.50 रुपए प्रति सिलेंडर पर था। बता दें कि रसोई गैस सिलेंडर के रेट में कोई इजाफा नहीं किया गया है।

**केनरा बैंक Canara Bank**  
A Government of India Undertaking

प्र.का., 112, जे.सी. रोड, बंगलूरु - 560 002  
[www.canarabank.com](http://www.canarabank.com)

**केनरा बैंक के शेयरधारकों से अपील**

- सेबी (सूचीबद्धता दाखिल और प्रकटन अधिकांश) विनियमवली, 2015 के विनियम 40(1) के अनुसार, भौतिक मोड में धारित प्रतिभूतियों का अंतरण 01 अप्रैल, 2019 से बंद कर दिया गया है। तदनुसार, शेयरों का अंतरण केवल तभी किया जा सकता है जब शेयर डीमैट फॉर्म में रखे हुए जाएंगे।
- इसके अलावा, सेबी ने परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी/आरटीएमबी/पी/सीआईआर/2022/8 दिनांक 25 जनवरी 2022 के माध्यम से निर्णय लिया है कि सूचीबद्ध कंपनियों ड्रॉफ्ट शेयर प्रमाणपत्र, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन, आदि जारी करने के अनुरोधों को संसाधित करते समय, अब से केवल डीमैट फॉर्म में प्रतिभूतियां जारी करेंगी।
- उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम भौतिक रूप में शेयर रखने वाले बैंक के सभी शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे कृपया अपने शेयरों को डीमैटरियलाइज करें।
- केनरा बैंक ने भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को अलग से संसूचना भेजा है जिसमें उन्हें अपने संबंधित फोलियो में अपेक्षित केवाईसी विवरण को अद्यतन करने की सलाह दी गई है। उपरोक्त परिपत्रों और अपेक्षित प्रपत्रों (आईएसआर-1 से 4, प्रपत्र एसएच-13 और 14) की प्रतिलिपियां बैंक की वेबसाइट <https://canarabank.com/shareholder-information> और इसके रजिस्ट्रार एवं ट्रांसकर एजेंट (आरटीए), अर्थात्, केफिन टेक्नोलॉजीज लि. की वेबसाइट [www.kfintech.com](http://www.kfintech.com) पर उपलब्ध हैं। सेबी ने अपने परिपत्र सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/पीओडी-1/पी/सीआईआर/2023/181 दिनांक 17.11.2023 के माध्यम से केवाईसी अद्यतन की आवश्यकता को दोहराया है और फोलियो की प्रीजिंग/रेफरल को समाप्त कर दिया है।
- सेबी परिपत्र सं. सीआईआर/एमआरडी/डीपी/10/2013 दिनांक 21.03.2013 के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियों को शेयरधारकों के लामांश का भुगतान सहित निवेशकों के सभी भुगतान ईसीएस [एलईसीएस (स्थानीय ईसीएस)/आरईसीएस (क्षेत्रीय ईसीएस)/एनईसीएस (राष्ट्रीय ईसीएस)], एनईएफटी आदि जैसे आरबीआई द्वारा अनुमोदित भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से अनिवार्य रूप से करना होगा। हम उन सभी शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं जिन्होंने अब तक अपने बैंक खाते के विवरण को पंजीकृत नहीं किया है कि वे इसे पंजीकृत/अपडेट करा लें। तदनुसार, हम डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले बैंक के शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने डीमैट सेवा प्रदाता से अपने बैंक खाते के विवरण की शुद्धता को सत्यापित कराएं और यदि आवश्यक हो तो उसे अद्यतन कराएं।
- तदनुसार, हम भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे उपरोक्त प्रपत्रों/प्रारूपों में ई-मेल आईडी और/या बैंक खाते के विवरण (यदि पहले प्रस्तुत नहीं किया गया है) सहित अपेक्षित केवाईसी विवरण प्रस्तुत करें और इसे नीचे दिए गए पते पर हमारे आरटीए को जमा करें:
 

केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (केफिन), वित्तीय, सिटी, केनरा बैंक, सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31-32, गांधीबोवली, बुधिया जिला, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद - 500032 [टोल फ्री नं. 1800-309-4001, ई-मेल : [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com)]
- हम केनरा बैंक के सभी शेयरधारकों से जिन्होंने अब तक बैंक के साथ अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, उनसे अनुरोध है कि वे सामान्य बैठकों की सूचनाएं प्राप्त करने, ई-वोटिंग में भाग लेने, वार्षिक रिपोर्ट और अन्य संसूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त करने के लिए अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत कराएं।

कृते केनरा बैंक संतोष कुमार बारिक कंपनी सचिव

स्थान : बंगलूरु  
दिनांक : 02.12.2023

**ASK Automotive Limited**  
(Formerly known as ASK Automotive Private Limited)  
CIN: U34300DL1988PLC030342

**DRIVING SAFETY THROUGH INNOVATION**

**Extract of Statement of Consolidated Unaudited Financials Results for the Quarter and Six Months ended 30 September 2023**

(INR in Lakhs)

S. No.	Particulars	Quarter ended			Six Months Ended		Year ended
		September 30, 2023	June 30, 2023	September 30, 2022	September 30, 2023	September 30, 2022	March 31, 2023
		Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income	79,841.85	65,754.57	74,916.13	1,45,596.42	1,35,589.11	2,56,627.82
2	Net Profit/(Loss) (before share of Net Profit/(Loss) of joint venture)	5,412.46	4,542.98	6,902.91	9,955.44	10,385.01	17,564.78
3	Net Profit/(Loss) before tax	5,687.90	4,763.68	6,659.03	10,451.58	9,896.99	16,975.57
4	Net Profit/(Loss) after tax	4,124.12	3,482.86	4,870.71	7,606.98	7,126.10	12,295.00
5	Total Comprehensive Income/(Loss)	4,109.04	3,469.18	4,865.70	7,578.22	7,112.02	12,293.70
6	Equity Share Capital	3,942.85	3,942.85	3,942.85	3,942.85	3,942.85	3,942.85
7	Other Equity						60,434.02
8	Profit/(Loss) per equity share* (Face Value of Rs.2)						
	(a) Basic (In Rs.):	2.09	1.77	2.43	3.86	3.55	6.18
	(b) Diluted (In Rs.):	2.09	1.77	2.43	3.86	3.55	6.18

\*Not annualised except for year ended 31<sup>st</sup> March, 2023.

**Notes:**

- The above is an extract of Consolidated Unaudited Financial Results of ASK Automotive Limited (Formerly known as ASK Automotive Private Limited) (the Holding Company) and its subsidiary (the Holding Company) and its subsidiary together referred to as 'the Group', its joint venture for the quarter and six months period ended 30 September 2023 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of Holding Company at their respective meetings held on 1 December 2023. The statutory auditors have carried out limited review of the above results.
- The Consolidated Unaudited Financial Results, for the quarter and six months period ended 30 September 2023 have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards 34, Interim Financial Reporting (Ind AS - 34), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 (the Act) and other accounting principles generally accepted in India and is in compliance with the presentation and disclosure requirement of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended).
- ASK Automotive Limited has completed an Initial Public Offer ('IPO') of 2,95,71,390 Equity shares having face value of INR 2 each, at an issue price of INR 282 per equity share (including share premium of INR 280 per share), comprising offer for sale of 2,95,71,390 shares by selling shareholders aggregating to INR 83,391.32 Lakhs. The equity shares of the ASK Automotive Limited were listed on BSE Limited ('BSE') and National Stock Exchange of India Limited ('NSE') on 15 November 2023. Accordingly, the above statement for the quarter and six months period ended 30 September 2023 have been drawn up for the first time, in accordance with Regulations 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended).
- The figures for the quarter and six months period ended 30 September 2022 have been approved by the Board of Directors and have been subject to review by the Statutory Auditors.
- The Group is primarily engaged in the manufacturing of auto components including advanced braking systems, aluminium lightweighting precision solutions and safety control cables primarily for automobile industry and substantial sale of the products is within India. Hence, there are no other reportable segments in terms of requirements Ind AS 108 'Operating Segments'.

**Additional Information on Standalone Financial Results**

S. No.	Particulars	Quarter ended			Six Months Ended		Year ended
		September 30, 2023	June 30, 2023	September 30, 2022	September 30, 2023	September 30, 2022	March 31, 2023
		Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income	79,629.87	65,810.45	74,993.01	1,45,440.32	1,35,716.90	2,57,037.67
2	Net Profit/(Loss) before tax	6,358.40	4,818.76	7,010.97	11,177.16	10,571.23	18,279.81
3	Net Profit/(Loss) after tax	4,794.48	3,537.33	5,222.65	8,331.81	7,800.34	13,599.24

**Notes:**

- The above is an extract of Standalone Unaudited Financial Results of ASK Automotive Limited (Formerly known as ASK Automotive Private Limited) (the Company) for the quarter and six months period ended 30 September 2023 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 1 December 2023. The statutory auditors have carried out limited review of the above results.
- The Standalone Unaudited Financial Results, for the quarter and six months period ended 30 September 2023 have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards 34, Interim Financial Reporting (Ind AS - 34), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 (the Act) and other accounting principles generally accepted in India and is in compliance with the presentation and disclosure requirement of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended).
- The Company has completed an Initial Public Offer ('IPO') of 2,95,71,390 Equity shares having face value of INR 2 each, at an issue price of INR 282 per equity share (including share premium of INR 280 per share), comprising offer for sale of 2,95,71,390 shares by selling shareholders aggregating to INR 83,391.32 Lakhs. The equity shares of the Company were listed on BSE Limited ('BSE') and National Stock Exchange of India Limited ('NSE') on 15 November 2023. Accordingly, the above statement for the quarter and six months period ended 30 September 2023 have been drawn up for the first time, in accordance with Regulations 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended).
- The figures for the quarter and six months period ended 30 September 2022 have been approved by the Board of Directors and have been subject to review by the Statutory Auditors.
- The Company is primarily engaged in the manufacturing of auto components including advanced braking systems, aluminium lightweighting precision solutions and safety control cables primarily for automobile industry and substantial sale of the products is within India. Hence, there are no other reportable segments in terms of requirements Ind AS 108 'Operating Segments'.

The Above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the quarter and six months period ended 30 September 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter and six months period ended Financial Results are available on the website of the Stock Exchanges at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) / [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and company website [www.askbrake.com](http://www.askbrake.com).

**For and on behalf of the Board of Directors of ASK Automotive Limited (Formerly known as ASK Automotive Private Limited)**

Sd/-  
**Kuldip Singh Rathoe**  
Chairman and Managing Director  
DIN: 00041032

Place: Gurugram  
Date: 1 December 2023

Registered Office: Flat No. 104, 929/1, Naiwala, Faiz Road, Karol Bagh, New Delhi-110005.  
Phone: 011-28758433 ; E-mail: [info@askbrake.com](mailto:info@askbrake.com); websites: [www.askbrake.com](http://www.askbrake.com)